



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Phage 2 EE KWA works Division Delhi



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

SUSHMA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
DILIPAN THANA NO B8 WARD NO 08
HOUSE NO 860 A SASARAM
821115
INDIA

सावधि खाता क्र. / FD A/c No	12060300021741
सावधि सूचना क्र. / FD Advice No	FDR0607222912
कस्टमर आईडी क्र. / Customer ID No	JBB068546
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	12060200001011
शाखा का नाम / Branch Name	SASARAMBIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination	N
नामिनी पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	
पैन नंबर / PAN No.	AAWCS6202M
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	PROPRIETOR
लियन चिह्नित / Lien Marked	N

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
अभिभावक का नाम यदि खाताधारक अवयस्क है / Guardian Name (If a/c holder is minor)	

जमा राशी / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
2125000	14-03-2023	5.30	0 Months 365 Days	14-03-2023	2237625

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त / Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में तय किया है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज	2. Automatic Renewal clause
i) यदि अवधि अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तिथि पर प्रचलित व्याज दर के अनुसार स्वतः नवीकृत किया जाएगा। ii) यदि अवधि अवधि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तिथि पर प्रचलित व्याज दर के अनुसार स्वतः नवीकृत नहीं किया जाएगा।	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposit will be renewed for 1 year at prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
3. फॉर्म 15G और 15H एचआरआई खातों के लिए है।	3. form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दूसरी तिमाही से शुरू होने से पूर्व एक नया 15G/15H/15EE यदि लागू लागू प्रस्तुत किया जाए अन्यथा स्वतः नवीकृत नहीं किया जाएगा।	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted
5. फॉर्म 15H केवल 60 वर्ष या अधिक आयु के ही स्वीकार किए जाएंगे।	5. Form 15h can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता पूर्व प्रत्येक क्लॉज	6. Premature Withdrawal Clause
i) निपटारा तक 10 करोड़ से अधिक अवधि से पूर्व प्रत्येक अवधि निवासी, या निवासी व्यक्तियों द्वारा किया जाने की जागीर से निवासी प्रत्येक बैंक में राशि रही उसके बाद से 10 करोड़ से कम। ii) निपटारा से अधिक राशि के निवासी प्रत्येक से पूर्व प्रत्येक अवधि निवासी, या निवासी व्यक्तियों द्वारा किया जाने की जागीर से निवासी प्रत्येक बैंक में राशि रही उसके बाद से 10 करोड़ से अधिक राशि के निवासी प्रत्येक से पूर्व प्रत्येक अवधि निवासी, या निवासी व्यक्तियों द्वारा किया जाने की जागीर से निवासी प्रत्येक बैंक में राशि रही उसके बाद से 10 करोड़ से कम।	i) Premature withdrawal of deposit up to 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please Note, this is a system generated advice and does not require any signature



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank



जमा पुष्टि सूचना/Deposit Confirmation Advice

SUSHMA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED DILIPYAN THANA NO B8 WARD NO 08 HOUSE NO 860 A SASARAM 821115 INDIA	सावधि खाता क्र./FD A/c No सावधि सूचना क्र./FD Advice No करंटगार आईडि क्र./Customer ID No व्यवहार खाता /Linked Operative a/c शाखा का नाम/Branch Name	12060300021736 FDR0607222248 JBB068546 12060200001011 SASARAMBIHAR
---	---	--

योजना / Scheme नामांकन / Nomination नामिनी पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No. पैन नंबर / PAN No. परिचालन पद्धति / Mode of Operation लिंगन विहित / Lien Marked	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES) N AAWCS6202M PROPRIETOR N	संयुक्त धारक / Joint Holder (s) अभिभावक का नाम यदि खाताधारक अव्यस्क है / Guardian Name (If a/c holder is minor)
--	---	---

जमा राशी / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
30000000	13-03-2023	5.30	0 Months 365 Days	13-03-2024	3159000

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/ Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में लागू है।	1 Rate of Interest is in percentage per annum
2. स्वतः नवीकरण कमीशन	2 Automatic Renewal clause
i) यदि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष न दिया हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए जो गई जमा राशि का नवीकरण देव तारीख पर पूर्वोक्त ब्याज दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above Deposit will be renewed for 1 year at prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
ii) यदि निम्न न दिए जाय तो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जो गई जमा राशि का नवीकरण देव तारीख पर प्रचलित ब्याज दर के अनुसार द्वारकी की अवधि के लिए किया जाएगा।	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
3. फार्म 15G और 15H को निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाएगा।	3 form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
4. निवासी व्यक्तिगत खाता प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15जी/15एच/15एए, यदि लागू हो, प्रस्तुत किया जाए अन्यथा खाता पर कर कटौती की जाएगी।	4 A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted
5. फार्म 15G और 15H को केवल नागरिकों को 60 वर्ष से अधिक आयु से ही स्वीकृत किए जाएंगे।	5 Form 15h can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. प्रत्यक्ष नवीकरण कमीशन	6 Premature Withdrawal Clause
i) 1 करोड़ तक की जमा राशि की प्रत्यक्ष नवीकरण अवधि से पूर्व इसकी प्रारम्भ निकासी पर 1% वार्षिक लगेगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से दिनांक अवधि तक बैंक में राशि रही उसकी कार्ड रेट से 1% कम।	i) Premature withdrawal of deposit up to 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank
ii) 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की प्रत्यक्ष नवीकरण अवधि से पूर्व इसकी प्रारम्भ निकासी पर 1.5% वार्षिक लगेगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से दिनांक अवधि तक बैंक में राशि रही उसकी कार्ड रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की प्रत्यक्ष नवीकरण अवधि से पूर्व इसकी प्रारम्भ निकासी पर बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी।	ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank

Please Note, this is a system generated advice and does not require any signature



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pledged to EE RWA Works Division Dehri



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

SUSHMA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	सावधि खाता क. / FD A/c No	12060300021737
DILIYAN THANA NO B8 WARD NO 08	सावधि सूचना क. / FD Advice No	FDR0607222432
HOUSE NO 860 A SASARAM	करंटगार आईडि क. / Customer ID No	JBBO68546
821115	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	12060200001011
INDIA	शाखा का नाम / Branch Name	SASARAMBIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination	N
नामिनी पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	
पैन नंबर / PAN No.	AAWCS6202M
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	PROPRIETOR
लियन चिह्नित / Lien Marked	N

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
अभिभावक का नाम यदि खाताधारक अव्यस्कृत है / Guardian Name (If a/c holder is minor)	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
4000000	13-03-2023	5.30	0 Months 365 Days	13-03-2024	4212000

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें / Terms & Conditions:

1 खाता पर प्रतिवर्ष 5% ब्याज है।	1 Rate of Interest is in percentage per annum
2 खाता स्वतः नवीकृत करेगा।	2 Automatic Renewal clause
1) यदि अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 1 वर्ष के अवधि के लिए की गई जमावर्षिक को नवीकृत देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।	1) For Deposits issued for a period of 1 year and above Deposit will be renewed for 1 year at prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
2) यदि अवधि 1 वर्ष से कम है तो अवधि के लिए की गई जमावर्षिक को नवीकृत देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दर के अनुसार अवधि के लिए किया जाएगा।	2) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3 फॉर्म 15G और 15H को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए देना है।	3 form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
4 निवासी व्यक्तिगत खाता प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पार होने से पूर्व एक नया 15जी/15एच/15एचए यदि लागू होना प्रस्तावित किया जाए अन्यथा ध्यान पर कर कटौती की जाएगी।	4 A fresh 15G, 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5 फॉर्म 15H को केवल वयस्क नागरिकों को 60 वर्ष से अधिक उम्र से ही स्वीकार किया जाएगा।	5 Form 15h can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6 प्रत्येकता प्रत्येक करेगा।	6 Premature Withdrawal Clause
1) 1 करोड़ तक की जमावर्षिक की प्रत्येकता प्रत्येक से पूर्व इसकी प्रारम्भिक निवासीद पर 15 फरवरी तक की अवधि जमा किए जाने की तारीख तक प्रत्येक तक बैंक में रहीं तब तक काटें रेट से 1% कम।	1) Premature withdrawal of deposit up to 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
2) 1 करोड़ से अधिक की जमावर्षिक की प्रत्येकता प्रत्येक से पूर्व इसकी प्रारम्भिक निवासीद पर 15 फरवरी तक की अवधि जमा किए जाने की तारीख तक प्रत्येक तक बैंक में रहीं तब तक काटें रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की जमावर्षिक की प्रत्येकता प्रत्येक से पूर्व इसकी प्रारम्भिक निवासीद पर 1.5% कम। 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	2) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please Note, this is a system generated advice and does not require any signature



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

कोन्टेक्ट सेंटर के टोलफ्री फोन नं., Toll free Phone Numbers of Contact Centre: 1800 22 33 44, 1800 102 44 55

आवधिक जमा रसीद TERM DEPOSIT RECEIPT

ग्राहक सं. क्रं.

JBBD68546

Customer Ref. No.

जारी तारीख 13-08-2021

Issue Date 13-08-2021

तारीख को 13-08-2021

As of Date 13-08-2021

देय तारीख 13-08-2021

Due Date (यदि नाबालिग)

D.O.B. if Minor

खाता क्रं. 1206030002019

A/c No.

Debit

Received With Thanks From E.E. RUD MOHRS DIVISION

Branch

Head Office - Mandvi, Baroda

प्रधान कार्यालय - माण्डवी, बड़ौदा

परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन
M. V. is subject to TDS

परिपक्वता मूल्य ₹ 25,32,377.00
Maturity Value ₹

रुपये The sum Four Lakh Twelve Thousand
Rupees only

से धन्यवाद सहित प्राप्त

आवधिक जमा राशि के योजना अनुसार

As Term Deposit Under Scheme

रसीद क्रमांक Receipt No.	मूल्य तारीख Value Date	देय तारीख Due Date	अवधि Period	व्याज दर Rate of Interest	राशि ₹ Amount ₹
TDR2016/LL 0928050	13-08-2021	13-08-2022	12 M	4.90%	24,12,000

परिचालनीय अनुदेश यदि है

Operational Instructions, if any

लिफ्ट नोट करने की ता.

Lien Noted On

लिफ्ट रद्द करने की ता.

Lien Cancelled On

नामिती रजिस्ट्रेशन क्रं.

Nominee's Reg. No.

अहस्तान्तरणीय

NON-TRANSFERABLE

गर्त पिटने पृष्ठ पर देखें SEE CONDITIONS OVERLEAF

कुल बैंक ऑफ बड़ौदा		FOR BANK OF BARODA	
वरिष्ठ प्रबंधक	Senior Manager	प्रबंधक	Manager
हस्त. क्रं. SIG. NO.	K/2229	हस्त. क्रं. SIG. NO.	

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल डिहरी

डिहरी, दिनांक 16/03/23

पत्रांक 306

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवा में,

शाखा प्रबंधक
बैंक ऑफ बडौदा
सासाराम।

विषय:- FD सत्यापन करने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक सुषमा एसोसियट प्रा0 लि0 द्वारा इस प्रमंडल में रु0 9125000.00(Ninty One Lakhs Twenty Five Thousand Only) का FD समर्पित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया निचे वर्णित FD का विवरणी सही है, एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल डिहरी के नाम से प्रतिज्ञित है कि नहीं सत्यापन करने का कष्ट करेंगे।

क्र0 सं0	FD NO	दिनांक	राशि
1.	12060300021741	14.03.2023	2125000.00
2.	12060300021737	13.03.2023	4000000.00
3.	12060300021736	13.03.2023	3000000.00
			कुल 9125000.00



विश्वासभाजन

Signature
15.03.23

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल डिहरी
15/3/23